

GOVERNMENT OF INDIA

 सत्यमेव जयते
दिल्ली राजपत्र
Delhi Gazette

असाधारण
EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 76]	दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 30, 2018/चैत्र 9, 1940	[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 485
No. 76]	DELHI, FRIDAY, MARCH 30, 2018/ CHAITRA 9, 1940	[N.C.T.D. No. 485

भाग—IV
PART—IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र, दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

वित्त (राजस्व-1) विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 28 मार्च, 2018

सं. 15/2018-राज्य कर

सं.फा. 03(103)/वित्त(राज.-1)/2017-18/डीएस-VI/164.—राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, दिल्ली माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 3) की धारा 164 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, 1 अप्रैल, 2018 को उस तारीख के रूप में नियत करती है, जिससे दिल्ली के राजपत्र, असाधारण, भाग IV, में सं.फा. 03(102)/वित्त(राज.-1)/2017-18/डीएस-VI/163, तारीख 28 मार्च, 2018 द्वारा प्रकाशित अधिसूचना सं. 12/2018-राज्य कर, तारीख 28 मार्च, 2018 के नियम 2 के उप-नियम (ii), खंड (7) के सिवाए, और नियम 2 के उप-नियम (iii), उप-नियम (iv), उप-नियम (v), उप-नियम (vi) और उप-नियम (vii) के उपबंध प्रवृत्त होंगे।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर,

ए. के. सिंह, उप-सचिव-VI (वित्त)

FINANCE (REVENUE-1) DEPARTMENT**NOTIFICATION**

Delhi, the 28th March, 2018

No. 15/2018–State Tax

No. F.3(103)/Fin (Rev-I)/2017-18/DS-VI/164.—In exercise of the powers conferred by section 164 of the Delhi Goods and Services Tax Act, 2017 (Delhi Act 03 of 2017), the Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi hereby appoints the 1st day of April, 2018, as the date from which the provisions of sub-rules (ii) [other than clause (7)], (iii), (iv), (v), (vi) and (vii) of rule 2 of notification No. 12/2018–State Tax, dated the 28th March, 2018, published in the Gazette of Delhi, Extraordinary, Part-IV, vide No. F. 3(102)/Fin(Rev-I)/2017-18/DS-VI/163, dated 28th March, 2018, shall come into force.

By order and in the name of the Lt. Governor
of the National Capital Territory of Delhi,

A.K. SINGH, Dy. Secy.-VI (Finance)

**RAKESH
SUKUL**

Digitally signed by RAKESH
SUKUL
Date: 2018.04.05 19:23:16
+05'30'